

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य - दिनांक 22.07.2021

सोशल मीडिया सेल की तत्परता थाना मदनापुर पुलिस की त्वरित
कार्यवाही,

सोशल मीडिया फेसबुक पर अवैध असलहा के साथ स्टेटस लगाकर रोग
दिखाने वाला गिरफ्तार अवैध असलाह व कारतूस बरामद।

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार रौब दिखाने के लिए अवैध असलाह के साथ फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने तथा अवैध असलहा रखने वालों के गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के अंतर्गत श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक थाना मदनापुर के कुशल नेतृत्व में मदनापुर पुलिस द्वारा शाहजहांपुर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर अकान्टर पर प्राप्त शिकायती ट्वीट “अवैध असलाह लेकर फेसबुक स्टेटस पर रौब दिखा रहा है युवक” के वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया सेल ने तत्परता दिखाते हुए , मदनापुर पुलिस को कार्यवाही हेतु अवगत कराने पर त्वरित कार्यवाही करते थाना मदनापुर पुलिस टीम ने सम्बंधित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

दिनांक 22.07.2021 को थाना मदनापुर पुलिस टीम अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो तीन दिन पहले ग्राम पेहना के एक लडके की तमन्चा हाथों में लिए हुए वीडियो वायरल हुई थी वह डर के मारे उस तमन्चे को किसी को देने ग्राम पेहना से मंझौला की ओर आ रहा है यदि जल्दी की जाय तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके बताये गये स्थान से उस व्यक्ति को पेहना शिव मन्दिर के सामने मंझौला जाने वाले कच्चे रास्ते पर समय करीब 06.10 बजे पकड़ रामतीर्थ S/O कृष्णपाल R/O ग्राम पेहना थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमन्चा

देशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ।
जिसके संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0
406/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की
गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामतीर्थ S/O कृष्णपाल R/O ग्राम पेहना थाना मदनापुर जिला
शाहजहाँपुर संबंधित मु0अ0सं0 406/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0

बरामदगी -

1. एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315
बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

- 1- उ0नि0 श्री नरगेश कुमार थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर
- 2- का0 2192 अनुज नैन थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर

